



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 957 राँची, गुरुवार,

17 अक्टूबर, 2019 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

1 अक्टूबर, 2019

संचिका संख्या-2/राज०स्था० ठाकुरगंगटी गोड्डा अंचल सृजन -42/2018-3751/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय:- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-25.09.2019 में मद संख्या-18 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में गोड्डा जिलांतर्गत अंचल कार्यालय-ठाकुरगंगटी हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- i) अंचल कार्यालय-ठाकुरगंगटी हेतु अंचल अधिकारी का 01 (एक) पद, प्रधान लिपिक का 01 (एक) पद, उच्च वर्गीय लिपिक का 01 (एक) पद, निम्नवर्गीय लिपिक का 02 (दो) पद, राजस्व उप निरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) का 06 (छः) पद, अमीन का 02 (दो) पद, जंजीरवाहक का 02 (दो) पद, जीप चालक (बाह्य स्रोत से) का 01 (एक) पद, आदेशपाल (बाह्य स्रोत से) का 03 (तीन) पद एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर (बाह्य स्रोत से) का 01 (एक) पद (राजपत्रित पद-01

एवं अराजपत्रित पद-19) अर्थात आवश्यक कुल 20 (बीस) पदों का सृजन निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है(विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट-I) :-

- (क) समूह 'घ'/चालक के पदों के विरुद्ध बाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त की जाय तथा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर मासिक मानदेय दिया जाय।
- (ख) कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर बाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त की जाएगी।
- (ग) बाह्य स्रोत (Outsourcing) के पद स्वीकृत नहीं समझे जाय, अपितु बाह्य स्रोत की सेवा प्राप्त किये जाने हेतु अधिकतम कर्मों की संख्या समझी जायेंगी।
- (घ) सृजित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं०-660/वि०, दिनांक-28.02.2009 द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे एवं 7वीं वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प सं०-217/वि०, दिनांक-18.01.2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।
- ii) एक वित्तीय वर्ष में सृजित पदों के लिए अनुमानित व्यय की राशि 60,54,400/- (साठ लाख चौवन हजार चार सौ) रुपये है (विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट-II)।
- iii) उक्त पदों के लिए व्यय का विकलन "गैर योजना आय व्ययक मुख्यशीर्ष-2029, भू-राजस्व, लघुशीर्ष-104, सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध उपशीर्ष -01 राजस्व प्रशासन पर व्यय" के अन्तर्गत किया जायेगा।
- iv) नवसृजित अंचलों में पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के अद्यतन नियमों, परिपत्रों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत इसके लिए समय-समय पर घोषित सक्षम प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

अनु०- परिशिष्ट- I एवं II

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राम कुमार सिन्हा,**

सरकार के संयुक्त सचिव

**परिशिष्ट-I**

गोड्डा जिला अंतर्गत अंचल-ठाकुरगंगटी के लिए प्रस्तावित पदों का नाम एवं वेतनमान :-

क्र.	पदनाम	छठा वेतनमान (पे बैण्ड, वेतनमान, ग्रेड पे)	सप्तम वेतनमान	लेवल	पदों की संख्या
1-	अंचल अधिकारी	पी बी II, 9300-34800/- 5400	53100	9	1
2-	प्रधान लिपिक	पी बी II, 9300-34800/- 4200	35400	6	1
3-	उच्च वर्गीय लिपिक	पी बी I, 5200-20200/-2400	25500	4	1
4-	निम्नवर्गीय लिपिक	पी बी I, 5200-20200/-1900	19900	2	2
5-	अमीन	पी बी I, 5200-20200/-2000	21700	3	2
6-	राजस्व उप निरीक्षक (राजस्व कर्मचारी)	पी बी I, 5200-20200/-2000	21700	3	6
7-	जंजीरवाहक	I एस, 4440-7440/- 1650	18000	1	2
8-	जीप चालक	बाह्य स्रोत से			1
9-	आदेशपाल	बाह्य स्रोत से			3
10-	कम्प्यूटर ऑपरेटर	बाह्य स्रोत से			1
कुल योग-					20 (बीस) पद

**परिशिष्ट-II**

गोड्डा जिला अंतर्गत अंचल-ठाकुरगंगटी के लिए के लिए प्रस्तावित पदों के लिए अनुमानित व्यय विवरणी सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार (एक वित्तीय वर्ष के लिए) :-

(रूपये में)

वेतन (DA, HRA तथा MA सहित)	5619000
कार्यालय व्यय	200000
यात्रा व्यय	100000
विधुत प्रभार	50000
दूरभाष	50000
वर्दी	35400
कुल	6054400

(साठ लाख चौवन हजार चार सौ रु०)

राम कुमार सिन्हा,  
सरकार के संयुक्त सचिव